

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 1978/चैत्र 1, 1900

No. 140] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 1978/CHAITRA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1978

क्र० आ० 193 (अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-
नियम (2) के अनु ण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनार्थ किया जाता है :—

प्ररूप 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिए]

पंजाब राज्य विधान सभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	अमर सिंह अम्बालवी	5, सेक्टर 4 चंडीगढ़, 160001.
2.	हरकिशन सिंह	ग्राम व डाकखाना बंडाला, जिला जालंधर।

1	2	3
3	भूपदर सिंह मान	बाड़ा, डाकघर सरहिंद।
4	राजिन्दर कौर	मास्टर तारा सिंह हाउस, सिख मिशनरी कॉलेज, अमृतसर।

स्थान पंजाब विधान सभा सचिवालय विधान भवन, चंडीगढ़।

तारीख : 18 मार्च, 1978

ह० अर्पणित, रिटर्निंग आफिसर,
सचिव, पंजाब विधान सभा।

[सं० 318/पंजाब/78]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, 22nd March, 1978

NOTIFICATION

S.O. 193(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information :—

FORM 7 B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members of the legislative Assembly of Punjab State.

Srl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Amar Singh Ambalvi	5, Sector 4, Chandigarh-160001.
2.	Harkishan Singh	V. & P.O. Bundala, District Jullundur.
3.	Bhopinder Singh Mann	Barra, P.O. Sirhind.
4.	Rajinder Kaur	Master Tara Singh House, Sikh Missionary College, Amritsar.

Place : Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhavan, Chandigarh.

Date : 18 March, 1978

Sd/-

Illegible

Returning Officer.

Secretary Punjab Vidhan Sabha.

[No. 318/PB/78]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.